

जनसंपर्क कार्यालय
जा मया मल्लिया इस्ला मया

प्रेस वज़्ज़ि

24 जून 2022

जा मया में पांच दिवसीय प्रशासनिक क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम आयोजित

जा मया मल्लिया इस्ला मया (जेएमआई) ने यूजीसी-मानव संसाधन विकास केंद्र (यूजीसी-एचआरडीसी), जा मया में वरिष्ठ संकाय सदस्यों और वश्व वद्यालय के अधिकारियों के लिए सचवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के सहयोग से 20 जून- 24 जून, 2022 तक पांच दिवसीय प्रशासनिक क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशासनिक कौशल को बढ़ाना था ताकि वश्व वद्यालय प्रशासन को ज्यादा कुशल और प्रभावी बनाया जा सके।

अपने उद्घाटन संबोधन में जा मया की कुलपति प्रो नजमा अख्तर ने वश्व वद्यालय के शिक्षकों और अधिकारियों के लिए कार्यक्रम की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि टीचर्स शिक्षण में बहुत अच्छे हैं लेकिन जा मया में पहली बार आयोजित इस तरह का क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम प्रशासनिक और नेतृत्व की भूमिका निभाने की उनकी क्षमता को और बढ़ाएगा।

यूजीसी-एचआरडीसी, जेएमआई के नोडल अधिकारी, निदेशक, प्रोफेसर अनीसुर रहमान ने मुख्य अतिथि, वशिष्ठ अतिथि प्रो. नाज़िम हुसैन अल-जाफ़री, रजिस्ट्रार, जा मया और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

उद्घाटन सत्र का समापन प्रो. नाज़िम हुसैन अल-जाफ़री, द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने वश्व वद्यालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की नई पहल करने के लिए कुलपति, जा मया को विशेष रूप से धन्यवाद दिया।

पांच दिवसीय कार्यक्रम के दौरान श्री रंजन कुमार, प्रो. एल.आर. अग्रवाल, श्री अरुण गौर, श्री के.के. पंत, आईएसटीएम के श्री राजीव के. झा जैसे विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही, इन्क्वायरी और पेनल्टीज़, आरटीआई, सेवा नियम, खरीद प्रक्रिया, कानूनी मामलों आदि जैसे विषयों पर बातचीत की।

कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक प्रमुख संस्था आईएसटीएम को केंद्र सरकार में अधिकारियों तथा प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन करने का कार्य सौंपा गया है। यह प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है और प्रशिक्षकों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन करता है। विभिन्न संगठित सेवाओं जैसे आईएस, आईईएस, आईएफएस और आईसीएलएस के प्रोवेशनर्स आईएसटीएम में

प्र शक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

जनसंपर्क कार्यालय

जा मया मल्लिया इस्ला मया